

मद सं०-34.04

विषय: हरिद्वार विकास प्राधिकरण के वर्ष 2001-02 का पुनरीक्षित एवं वर्ष 2002-2003 के प्रस्तावित आय व्ययक के सम्बन्ध में।

अ. वर्ष 2001-02 का पुनरीक्षित आय-व्ययक

प्राधिकरण का वर्ष 2001-02 का मूल आय-व्ययक प्राधिकरण की गत बोर्ड बैठक जून 2001 में स्वीकृत किया गया था जिसमें कुल आय रू० 2867.00 लाख तथा कुल व्यय रू० 2749.70 लाख का स्वीकृत किया गया था। उक्त के विरुद्ध 15 मार्च 2002 तक की उपलब्धियों में कुल आय रू० 421.72 लाख तथा कुल व्यय रू. 535.22 लाख का हुआ है। इस आय में मुख्य रू. 20.00 करोड़ का ऋण हडकों से लिया जाना प्रस्तावित था जो कि नहीं लिया गया है। प्राधिकरण द्वारा इस वर्ष रू० 80.00 लाख का भुगतान ट्रांसपोर्ट नगर हरिद्वार हेतु अपने स्रोतों से उपलब्ध राशि से किया गया है। अतः ब्याज से बचने हेतु ऋण नहीं लिया गया है। इसके अतिरिक्त रू. 45.00 लाख स्टाम्प ड्यूटी मद में राजस्व परिषद, इलाहाबाद उ.प्र.से प्राप्त होना था जो कि अथक प्रयासों के बावजूद अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। भूमि अर्जन में शासन स्तर से हो रहे बिलम्ब के कारण इस वर्ष नई योजनाओं में विक्रय से प्राप्त अनुमान रू. 2.00 करोड़ के विरुद्ध भी प्राप्ति भी शून्य रही है। प्राधिकरण स्तर पर सभी मदों में प्राप्ति के विशेष प्रयास किये गये हैं। फलस्वरूप शमन आदि के लक्ष्य पूर्ण कर लिये गये हैं। विकास शुल्क से आय ले-आउट की पत्रावलियों पर निर्भर होता है। वर्तमान में कोई भी ले-आउट की पत्रावलियाँ लम्बित नहीं हैं। इस वर्ष ले-आउट के मामले कम प्राप्त होने के कारण प्राप्ति भी कम रही है।

आय के सापेक्ष व्यय में भी कमी रही है। पूंजीगत व्ययों में मुख्य रूप से प्राविधान भूमि क्रय एवं इन योजनाओं में विकास कार्यों हेतु कुल रू. 21.85 करोड़ का रखा गया था जिसके विरुद्ध व्यय मात्र रू. 0.80 करोड़ का ही किया जा सका है। अवस्थापना विकास निधि मद में प्राविधान रू. 2.50 करोड़ के विरुद्ध प्राप्त स्वीकृतियों के क्रम में वास्तविक व्यय रू. 3.34 करोड़ का हुआ है। राजस्व व्यय कुल प्राविधान रू. 1.39 करोड़ के विरुद्ध मात्र रू० 0.86 करोड़ के हुए हैं। इस प्रकार प्राधिकरण के पुनरीक्षित आय-व्ययक में कुल आय रू० 504.00 लाख तथा कुल व्यय रू० 583.47 लाख के प्रस्तावित है।

ब. वर्ष 2002-03 का प्रस्तावित आय-व्ययक

प्राधिकरण के प्रस्तावित आय-व्ययक में कुल आय रू० 36.02 करोड़ तथा कुल व्यय रू० 35.61 करोड़ का प्रस्तावित किया जा रहा है। पूर्ण मदों वार विवरण संलग्न है।

इस वर्ष के बजट में मुख्य व्यय नई योजनाओं हेतु भूमि क्रय एवं इनमें विकास कार्यों आदि का है।

(3) विष्णुघाट पर सुलभ शौचालय के सम्बन्ध में ।

निर्णय हुआ कि जिलाधिकारी, नगरपालिका, हरिद्वार से ह.वि.प्रा. को अनापत्ति पत्र शीघ्रतः शीघ्र उपलब्ध करायेंगे, ताकि सुलभ शौचालय का निर्माण प्रारम्भ हो सके। अतः एजेण्डा मद से समाप्त किया जाता है।


(4) ऋषिकेश व मुनिकीरेती, नगर पंचायतों अध्यक्षों के सुझाव सम्बन्ध में ।


एजेण्डा मद से समाप्त किया जाता है।

मद सं०-34.04: हरिद्वार विकास प्राधिकरण के वर्ष 2001-02 का पुनरीक्षित एवं वर्ष 2002-03 के प्रस्तावित आय-व्ययक के सम्बन्ध में ।

पुनरीक्षित आय-व्ययक वर्ष 2001-02 में प्रस्तावित आय रू० 504.00 लाख एवं व्यय रू. 583.62 लाख तथा प्रस्तावित आय-व्ययक वर्ष 2002-03 में कुल आय रू० 3577.00 लाख तथा कुल व्यय रू० 3556.85 लाख का निम्न सुझावों के साथ अनुमोदित किया गया :-

- (1) राजस्व आय में स्टाम्प ड्यूटी हेतु उ.प्र.शासन आवास विभाग के पत्र सं०-6668 दि० 16-3-02 के क्रम में उ.प्र. में लम्बित धनराशि रू० 45.00 लाख की मांग उत्तरांचल शासन से की जाय। इसके अतिरिक्त उत्तरांचल प्रदेश के गठन के बाद की इस मद की धनराशि लगभग रू० 50.00 लाख की भी मांग राजस्व परिषद, उत्तरांचल शासन से की जाय।
- (2) शमन शुल्क की आय हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाय।
- (3) फ्री-होल्ड शुल्क के कुल कितने मामले हैं तथा कितने लोगों ने विकल्प दिया है तथा विकल्पधारियों का समस्त विवरण सचिव ह.वि.प्रा. द्वारा उपाध्यक्ष/अध्यक्ष को एक सप्ताह के अन्दर प्रेषित किया जायेगा ।
- (4) रिवोल्विंग फंड में कितना पैसा है सचिव ह.वि.प्रा. ज्ञात करेंगे तदनुसार योजना बनायी जाय ।


Secretary


Vice Chairman


Chairman/Commissioner

174

जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है:-

- (1) ज्वालापुर कडच्छ के पास यू.पी.एस.आई.सी.सी. की 6.50 एकड़ भूमि क्रय हेतु रू. 2.00 करोड़ का प्राविधान ।
- (2) ट्रांसपोर्ट नगर हरिद्वार एवं ऋषिकेश हेतु भूमि क्रय हेतु रू0 8.00 करोड़ का प्राविधान
- (3) हरिलोक योजना फेस-2 भूमि क्रय हेतु आंशिक भुगतान रू0 10.00 करोड़ का प्राविधान ।
- (4) इन योजनाओं में आवश्यक विकास/निर्माण कार्यों हेतु कुल रू. 6.50 करोड़ का प्राविधान है।

1. राजस्व आय

राजस्व आय की मुख्य मदों में स्टाम्प ड्यूटी, विनियोजनों से ब्याज, मानचित्र शुल्क, शमन शुल्क, विकास शुल्क एवं फ्री-होल्ड शुल्क आदि से प्राप्तियों को दर्शाया जाता है। जो कि वर्ष 2002-03 हेतु कुल रू0 400.00 लाख की प्रस्तावित है जो कि गत वर्ष की वास्तविक प्राप्ति से रू0 104.00 लाख अधिक है। वर्ष 2001-02 में स्टाम्प ड्यूटी मद में राजस्व परिषद कार्यालय इलाहाबाद, उ0प्र0से रू0 45.00 लाख की राशि प्राप्त नहीं हो पायी है। इसके अतिरिक्त लगभग रू. 50.00 लाख के बिल उत्तरांचल शासन को भेजे जाने हैं। उक्त के दृष्टिगत रू. 70.00 लाख की प्राप्ति का अनुमान इस मद में प्रस्तावित है। प्राधिकरण के पास विभिन्न बैंकों में उपलब्ध लगभग रू. 6.00 करोड़ की सार्वधि जमाओं की राशि का उपयोग भूमि क्रय/विकास कार्यों में किया जाना है। इस कारण विनियोजन से ब्याज प्राप्ति के अनुमान को कम किया गया है। शेष मदे सामान्य रूप से वृद्धि करते हुए प्रस्तावित की गयी है।

2. पूंजीगत आय

पूंजीगत आय में मुख्य रूप से नई योजनाओं में सम्पत्ति विक्रय, अनुदान/ऋणों की प्राप्तियाँ तथा नई योजनाओं में सम्पत्ति विक्रय आदि से प्राप्त आय को सम्मिलित किया गया है। वर्तमान में प्राधिकरण के पास विक्रय हेतु सम्पत्ति उपलब्ध नहीं है। इस वर्ष भूमि अर्जन/क्रय की कार्यवाही प्राथमिकता पर की जा रही है। अतः मुख्य प्राप्ति रू. 500.00 लाख नई योजना में सम्पत्ति विक्रय/पूंजीकरण से प्रस्तावित है। ऋणों की प्राप्ति मद में हडको से रू0 2500.00 लाख का ऋण प्रस्तावित है। हालांकि प्राधिकरण का प्रयास रहेगा कि ऋण कम से कम ही लिया जाय। इस प्रकार पूंजीगत आय कुल रू0 3202.00 लाख की प्रस्तावित की जा रही है।

3. राजस्व व्यय

राजस्व व्यय में मुख्य रूप से अधिष्ठान के वेतन भत्ते, कार्यालय व्यय जैसे स्टेशनरी, डाक व्यय, टेलीफोन व्यय, कानूनी व्यय, छपाई, विज्ञापन, अतिथि सत्कार, मशीनरी/कम्प्यूटर अनुरक्षण एवं वाहन अनुरक्षण तथा डीजल पेट्रोल आदि पर व्यय सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त सम्परीक्षा शुल्क तथा कर्मचारियों को भवन निर्माण /वाहन क्रय हेतु अग्रिम भी राजस्व व्यय में प्रस्तावित है। इस प्रकार कुल मिलाकर राजस्व व्यय ₹0 145.85 लाख के प्रस्तावित है जो कि आवश्यकतानुसार एवं नियन्त्रण की दृष्टि से व्यावहारिक है।

4. पूंजीगत व्यय

पूंजीगत व्यय में मुख्य रूप से भू-अर्जन व्यय तथा योजनाओं में विकास/निर्माण कार्यों पर व्यय, हडको ऋण वापसी भुगतान आदि को सम्मिलित कर दर्शाया गया है। मुख्य व्यय भू-अर्जन, नई योजनाओं का विकास तथा अवस्थापना विकास निधि से व्ययों को प्रस्तावित किया गया है। इस प्रकार कुल ₹0 3415.00 लाख का प्राविधान पूंजीगत व्यय हेतु प्रस्तावित किया जा रहा है। कृपया उपरोक्तानुसार प्राधिकरण का वर्ष 2001-02 पुनरीक्षित एवं वर्ष 2002-03 का प्रस्तावित आय-व्ययक प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

हरिद्वार विकास प्राधिकरण
बजट

19

(रु० लाख में)

क्र. सं.	विवरण	1999-2000	2000-2001	2001-2002	2001-2002	2001-2002	2002-2003
		वास्तविक	वास्तविक	प्रस्तावित	तक वास्तविक	पुनरीक्षित	प्रस्तावित
(अ) राजस्व आय							
1	स्टाम्प ड्यूटी	0.00	61.43	50.00	0.00	0.00	70.00
2	विनियोजनों पर ब्याज प्राप्ति	35.87	37.98	125.00	93.31	94.00	35.00
3	मानचित्र शुल्क	10.45	15.74	17.00	12.35	12.50	20.00
4	शमन शुल्क	61.95	30.93	50.00	35.20	50.00	60.00
5	पर्यवेक्षण शुल्क	13.30	11.43	12.00	7.84	9.00	15.00
6	अनुदान प्राप्ति	16.75	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
7	विविध (टेण्डर फीस, लीज रेंट आदि)	32.61	5.62	7.00	3.69	4.00	10.00
8	विकास शुल्क	110.48	145.10	150.00	84.68	100.00	150.00
9	अम्बार शुल्क	3.44	12.24	15.00	12.00	13.00	15.00
10	फ्री-होल्ड शुल्क	23.32	32.14	20.00	11.51	13.50	15.00
(अ) कुल राजस्व आय		308.17	352.61	456.00	260.58	296.00	400.00
(ब) पूंजीगत आय							
1	ऋषिलोक योजना	4.40	4.57	2.00	2.54	2.75	3.00
2	शिवलोक	31.72	28.19	9.00	16.41	17.50	7.00
3	हरिलोक	141.26	88.36	70.00	34.30	40.00	50.00
4	श्यामलोक	115.72	63.70	45.00	34.28	38.00	50.00
5	हुडकों एवं अन्य संस्थाओं से ऋणों की प्राप्ति	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,500.00
6	आई.डी.एस.एम.टी.	0.00	3.25	10.00	0.00	0.00	0.00
7	गायत्री लोक	52.88	64.36	70.00	44.17	70.00	55.00
8	अन्य नई योजना	13.09	0.00	200.00	2.47	3.00	500.00
9	प्राधिकरण कर्मचारियों को भवन निर्माण/वाहन ऋण की वसूली	0.76	1.27	5.00	6.41	6.75	7.00
10	डिपॉजिट कार्यों हेतु प्राप्ति	0.00	0.00	0.00	20.56	30.00	30.00
(ब) कुल पूंजीगत आय		359.83	253.70	2411.00	161.14	208.00	3202.00
कुल आय (अ+ब)		668.00	606.31	2867.00	421.72	504.00	3602.00

हरिद्वार विकास प्राधिकरण

20

बजट

(₹0 लाख में)

क्र.	मद	1999-2000	2000-2001	2001-2002	2001-2002	2001-2002	2002-2003
		वास्तविक	वास्तविक	प्रस्तावित	दि015.3-2002 तक वास्तविक	पुनरीक्षित	प्रस्तावित
(अ)	राजस्व व्यय						
1-	अधिष्ठान						
(i)	कर्मचारी वेतन/भत्ते	50.88	48.56	55.00	48.88	53.00	60.00
(ii)	यात्रा भत्ता	1.20	1.34	1.00	0.39	0.50	0.60
(iii)	दैनिक वेतन	0.28	0.27	0.40	0.28	0.32	0.35
(iv)	अवकाश नकदीकरण/पेंशन अंशदान	2.98	1.21	1.50	0.00	0.75	1.00
	योग (अ)	55.34	51.38	57.90	49.55	54.57	61.95
2-	कार्यालय विविध व्यय						
(i)	डाक व्यय	0.26	0.17	0.30	0.08	0.15	0.20
(ii)	स्टेशनरी	1.48	1.33	2.00	1.32	1.50	2.00
(iii)	कार्यालय भवन अनुरक्षण	2.51	4.64	3.00	3.05	3.25	6.00
(iv)	टेलीफोन	3.86	3.07	4.00	2.07	2.50	2.75
(v)	पुस्तकालय	0.07	0.12	0.25	0.15	0.20	0.20
(vi)	कानूनी व्यय	1.11	1.02	1.00	1.06	1.25	5.00
(vii)	अतिथि सत्कार	0.51	0.22	0.50	0.40	0.50	1.00
(viii)	छपाई	0.78	0.75	1.00	0.24	0.50	1.00
(ix)	विज्ञापन	2.01	3.86	5.00	3.22	5.00	8.00
(x)	सम्परीक्षा शुल्क	1.48	1.50	2.00	2.00	2.00	2.00
(xi)	विविध	1.43	1.10	1.00	1.00	1.10	1.25
(xii)	कर्मचारी कल्याण	0.00	0.00	0.25	0.00	0.15	0.25
(xiii)	मशीनरी अनुरक्षण	0.26	0.36	0.50	0.62	0.70	0.75
(xiv)	विद्युत अनुरक्षण	1.26	0.36	0.50	0.38	0.50	0.50
(xv)	विवेकाधीन	0.08	0.19	0.25	0.20	0.25	0.50
(xvi)	अस्थायी अग्रिम	1.51	0.30	0.75	0.44	0.50	0.50
(xvii)	कम्प्यूटर अनुरक्षण	0.42	0.21	1.50	0.20	0.40	2.00
	योग (ब)	19.03	19.20	23.80	16.43	20.45	33.90

हरिद्वार विकास प्राधिकरण बजट

21

(रु० लाख में)

क्र.	मद	1999-2000	2000-2001	2001-2002	2001-2002		2001-2002	2002-2003
		वास्तविक	वास्तविक	प्रस्तावित	दि०15.3-2002 तक वास्तविक	पुनरीक्षित	प्रस्तावित	
3-	वाहन							
(i)	अनुरक्षण	1.68	2.30	3.00	1.89	2.50	3.00	
(ii)	पैट्रोल/डीजल	3.72	4.63	5.00	4.78	5.00	6.00	
	योग (स)	5.40	6.93	8.00	6.67	7.50	9.00	
4-	कर्मचारी अग्रिम							
(i)	वाहन	0.29	0.02	1.00	0.00	0.50	1.00	
(ii)	भवन/भूखण्ड	3.62	11.54	8.00	2.50	3.00	5.00	
	योग (द)	3.91	11.56	9.00	2.50	3.50	6.00	
5-	मास्टर प्लान	0.26	0.54	30.00	11.32	20.00	25.00	
6-	विकास कार्य (अनुदान)	17.57	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	
7-	आवास बन्धु	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	योग (य)	20.83	3.54	40.00	11.32	20.00	35.00	
	कुल योग राजस्व व्यय (अ+ब+स+द+य)	104.51	92.61	138.70	86.47	106.02	145.85	
	पूँजीगत व्यय							
1	कार जीप मशीनरी आदि क्रय	4.48	0.00	10.00	3.67	5.00	10.00	
2	कम्प्यूटर क्रय	3.53	2.99	5.00	0.00	0.00	7.00	
3	फर्नीचर/फिक्चर्स क्रय	0.56	1.28	1.00	1.04	1.10	1.00	
4	क्रैन्दीय स्टोर (सीमेन्ट व स्टील)	56.32	39.25	60.00	0.00	0.00	0.00	
	योग (अ)	64.89	43.52	76.00	4.71	6.10	18.00	

हरिद्वार विकास प्राधिकरण बजट

22

(रु० लाख में)

क्र.	मद	1999-2000	2000-2001	2001-2002	2001-2002	2001-2002	2002-2003
		वास्तविक	वास्तविक	प्रस्तावित	दि०15.3-2002 तक वास्तविक	पुनरीक्षित	प्रस्तावित
5	योजना भूमि क्रय						
(i)	गायत्रीलोक	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	नई योजना	0.00	0.00	2,000.00	80.00	80.00	2,000.00
	योग (ब)	30.27	0.00	2,000.00	80.00	80.00	2,000.00
6	योजना विकास/निर्माण कार्य						
(i)	शिवलोक	5.99	0.63	1.00	1.00	1.00	1.00
(ii)	श्यामलोक	14.34	22.27	10.00	13.85	15.00	5.00
(iii)	हरिलोक	29.37	48.76	15.00	7.84	10.00	5.00
(iv)	टी.एच.डी.सी.पुनर्वास योजना	0.47	0.75	1.00	0.00	0.00	0.00
(v)	ऋण वापसी	52.39	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
(vi)	ऋणों पर देय ब्याज	7.34	0.00	30.00	0.00	0.00	100.00
(vii)	आई.डी.एस.एम.टी.	16.94	2.82	10.00	4.86	6.00	0.00
(viii)	शोध/ट्रेनिंग/परामर्श शुल्क	2.91	1.22	3.00	0.00	0.35	1.00
(ix)	भवन/इन्फ्रास्ट्रक्चर	142.53	224.04	250.00	333.88	350.00	350.00
(x)	गायत्रीलोक	8.78	7.23	5.00	0.00	0.00	5.00
(xi)	आश्रय योजना/ई.डब्ल्यू.एस.	13.08	13.05	25.00	0.91	2.00	25.00
(xiii)	नई योजना	16.20	4.25	185.00	1.30	2.00	650.00
(xiv)	डिपॉजिट कार्यों पर व्यय	0.00	0.00	0.00	0.40	5.00	55.00
	योग (स)	310.34	325.02	535.00	364.04	391.35	1397.00
	कुल योग पूंजीगत व्यय	405.50	368.54	2611.00	448.75	477.45	3415.00
	सकल योग व्यय	510.01	461.15	2749.70	535.22	583.47	3560.85
	अन्तिम अवशेष	157.99	145.16	117.30	-113.50	-79.47	41.15

डिपॉजिट कार्यों की मदों को सुविधा की दृष्टि से इस आय-व्ययक में अलग से दर्शाया गया है।